

प्रसार भारती
भारत का लोक सेवा प्रसारक
दूरदर्शन केन्द्र, झालानाडूंगरी, जयपुर - 302004.

संख्या/दूदक/जय/1(32)2015-16-E/

दिनांक : 27.04.2015


विषय:- SITC of 800 Amp ACB हेतु निविदा।

महोदय,

कृपया संलग्न प्रपत्र में उल्लेखित तकनीकी सामान के लिए अपना भाव (कोटेशन) भेजें। कोटेशन मुहरबंद लिफाफे में अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास दिनांक 19.05.2015 को 3.00 बजे तक पहुँच जाना चाहिए। लिफाफे पर निम्नलिखित विवरण अवश्य लिखें। अपनी दरें प्रति नग के हिसाब से संलग्न प्रपत्र में दें।

- 1 जिस कार्य के लिए कोटेशन भेजा गया है।
- 2 पत्र का सन्दर्भ।
- 3 कोटेशन खोलने की तारीख।

निविदा अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में दिनांक 20.05.2015 को दोपहर तीन बजे, टेंडर भेजने वाले या उनके एजेन्ट की उपस्थिति में, यदि वे आते हैं तो, खोला जायेगा। भेजा गया कोटेशन स्वीकृति के लिए उसके खोलने की तारीख से 180 दिनों तक खुला रहेगा। किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार उपमहानिदेशक (अभियान्त्रिकी) को सुरक्षित रहेगा।

भवदीय

(पी० के० कुलश्रेष्ठ)
सहायक अभियन्ता

कृते: उपमहानिदेशक (अभियान्त्रिकी)

नोट - टेण्डर की सम्पूर्ण प्रति निम्न वेबसाइट्स पर उपलब्ध है।

www.ceddmnz.org.in

www.ddjaipur.net

Sub:- SITC of 800 Amp. ACB

Annexure

| Sr.No. | Description/Specifications of ACB | Qty | Rate | Taxes if any | Total in Rs |
|--------|---|--------|------|--------------|-------------|
| 1 | <p>Rated Normal current In 800Amp at 40°C</p> <p>Rated Input Voltage 415V AC</p> <p>No.of Poles/phase 3</p> <p>Frequency 50Hz</p> <p>Rated insulation Voltage Ui 1200V AC</p> <p>Rated Ultimate short circuit current Icu 50KAmp</p> <p>Rated Service short circuit current Ics 50KAmp</p> <p>Rated short time withstand capacity Icw 50KAmp (01 second)</p> <p>Rated making capacity Icm 100Amp (Approx)</p> <p>Utilization Category B</p> <p>Rated Impulse withstand voltage of main circuit 8KV (Approx)</p> <p>Rated Impulse withstand voltage of Aux circuit 4KV (Approx)</p> <p>Typical opening time 40msec (Approx)</p> <p>Typical closing time 60msec (Approx)</p> <p>Isolation facility Required</p> <p>Drawout facility Required</p> <p>Mechanical dimensions of existing ACB L 52Cm,W 26Cm, H 36.5Cm</p> <p>Easy racking on telescopic rails Required</p> <p>Colling and Arch quenching Natural Air</p> <p>Material of main Contacts Copper</p> <p>Preferable Make-L&T,Seimens,Crompton Greeves,Schneider,ABB or equivalent reputed make which is suitable for replacement of existing 800Amp ACB (LH 800D MIS,make-CG). Suitability is to be ensured by the firm before quoting the rates.</p> | 01 | | | |
| 2 | Packing and forwarding charges if any | 01 job | | | |
| 3 | Charges for removal of old ACB and Installation of New ACB | 01 job | | | |

PTO

Note:-

- The proposed model shall be suitable/to be made suitable with necessary modifications for replacement of existing ACB.
- The interested firms may visit site (HPT Nahargarh) before quoting the rates between 1000 hrs to 1700 hrs on working days.
- Payment will be made after satisfactory completion of work under the supervision of Engineer Incharge.
- The work is to be carried out in supervision of Engineer In Charge.
- It is an SITC work.
- All the safety precautions are to be observed by the successful bidder to ensure safety of persons doing the work.
- Copy of TIN certificate is to be enclosed with the quotation.
- Necessary modifications in Bus Bar including material are to be made by the successful bidder without any extra cost.
- EMD of Rs 5000/- in the form of Demand Draft issued by a scheduled commercial bank in favour of Drawing & Disbursing officer, Doordarshan Kendra, Jaipur, shall be attached with the quotation. The EMD of L1 & L2 firms will be retained till finalization of work order and remaining EMDs will be returned back.
- The L1 firm has to submit security deposit @ 5% of total tender value which shall be valid for warranty period plus two months, within 7 days from the date of receipt of work/supply order.
- The Warranty period of the ACB shall be mentioned clearly.



(P K Kulshrestha)

Assistant Engineer

For Dy. Director General (E)